



IndiaMART InterMESH Ltd.

6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra,

Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P.

Call Us: +91 - 9696969696

E: customercare@indiamart.com

Website: www.indiamart.com

Date: January 20, 2021

To

The Manager – Listing

BSE Limited

(BSE: 542726)

The Manager – Listing

National Stock Exchange of India Limited

(NSE: INDIAMART)

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Intimation of Publication of the Notice of the 26th Extra Ordinary General Meeting and remote e-voting instructions

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published the Notice of 26th Extra Ordinary General Meeting and remote e-voting instructions in the following newspapers on January 20, 2021:

- Mint (English Language National Daily Newspaper – All India) and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).

Please find attached the copies of the aforesaid advertisements.

Submitted for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Indiamart Intermesh Limited

(Manoj Bhargava)

Sr. Vice President (Legal & Secretarial),

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

Delaporte focuses on Europe to revive Wipro

As part of the new strategy, the CEO also plans to push M&As in Europe

Ayushman Baruah
ayushman.b@livemint.com
BENGALURU

When Thierry Delaporte took charge as the chief executive officer and managing director of Wipro Ltd last July, his mandate was to bring the IT firm, which lagged its peers for several years, back to growth.

His predecessor, Abidali Neemuchwala, had failed to deliver on his ambitious target of turning Wipro into a \$15-billion firm with operating margin of 23% by 2020. In FY20, the company's revenue was a little over \$8 billion, and operating margin stood at 18.1%. In fact, HCL Technologies Ltd beat Wipro to become India's third-largest software exporter in FY19.

In the past six months, Delaporte has kept a laser-sharp focus on execution. Effective 1 January, Wipro replaced its existing structure of 26 strategic business units, service lines and geographies, with just four strategic market units and two global business lines.

As part of the strategy, Delaporte is focusing on Europe, the second-largest market for Wipro, contributing 25.2% to its total revenue. As part of the new structure, Europe is structured into six regions—the UK and Ireland, Germany, Benelux, Nordics, Switzerland, and Southern Europe.

"In each of these regions, we invested in talent...we have appointed new heads for these countries, both internally and externally. And we have structured specific strategies for each of these countries," Delaporte said in a virtual interview. "In Europe, it's important to combine global expertise and local connects. So, while it's a journey, we have already started to invest in local



Delaporte's entry, albeit virtually, has augured well for Wipro so far, and in the last six months, he has maintained a laser-sharp focus on execution.

expertise."

Wipro is also looking to accelerate the pace of mergers and acquisitions (M&As) in Europe. "We have defined our roadmap for the next few years in terms of acquisitions in Europe and I think we will be more and

more visible in this market."

Wipro will focus on priority sectors. "In each of our chosen market in Europe, we have identified two to three sectors of priority. BFSI (banking, financial services and insurance) is a strategic sector for us in Europe as it is in Asia and America," Del-

aporte added. BFSI was the largest vertical for Wipro growing 1.2% sequentially in constant currency and contributed 30.5% to its revenue for the December quarter.

Delaporte's entry has augured well for the company so far. The stock price has more than doubled from the ₹220 levels in early July 2020 to a 52-week high of ₹467.20 on 13 January.

"The buzz around Wipro is not just due to its superior quarterly results, but also because of the larger transformation journey that Delaporte is architecting. His key priority is to drive growth agenda with much higher intensity. He has also created a large deals-team that will focus on winning transformational engagements and increasing Wipro's market share in Europe," said Nitin Bhatt, technology sector leader, EY India.

Wipro also came in second to Indonesia in terms of the average time spent on mobile phones in 2020, up 37% compared to 2019, while app downloads grew by 28% year-on-year.

India contributed nearly 9% of global app downloads in

2019, according to app analytics firm App Annie.

After India imposed the lockdown on 25 March, mobile usage saw a 20% rise over the next three months. Indians on an average spent nearly 4.8 hours on a device every day in 2020, beating the global average of 4.2 hours.

"From the advertisers' perspective, with the increase in digital adoption, the video on-demand phenomena is a big one driven by OTT, gaming and short video apps. And now video buying is happening through programmatic buying where measurement of return on investment is more transparent. There has been a strong push from advertisers," Vasuta Agarwal, managing director, Asia-Pacific, InMobi said in an interview.

Amazon India launches accelerator programme to boost e-com exports

Tarush Bhalla
tarush.b@livemint.com
BENGALURU

Amazon India on Tuesday launched an accelerator programme to help early-stage startups in the consumer products segment go global, supported by money and mentorship.

The first batch of the six-month Amazon Global Selling Propel (AGSP) programme will have close to 10 startups. The programme has partnered with the government's Startup India, Invest India initiative.

Amazon India will provide a grant of \$50,000 to the top three winners of the programme. It has also tied up with venture capital firms Sequoia Capital India and Fireside Ventures, which will invest in some of these businesses.

"Indian entrepreneurs are appreciating the value of their intellectual property, more than ever now and want to own their destiny, by creating indigenous products, rather than just being manufacturers. From an Amazon's perspective, we thought of creating a programme to accelerate the phenomena in the country," said Abhijit Kamra, director, global trade,



Bird flu confirmed in poultry samples from Mumbai's Thane, Kalyan areas: Centre bit.ly/36bFAx9



The first batch of the six-month Amazon Global Selling programme will have close to 10 startups

Amazon India.

"The adoption of technology and digital transformation has paved the way for India to be at the forefront of innovation, giving rise to some of the best startups in the world. There are many promising, emerging brands that have the capability to become big and go global. This is a timely initiative by Amazon which can prove to be a big stepping stone for startups to build their business and get access to global markets," said Deepak Bagla, managing director and chief executive, Invest India.

Amazon will also be hosting virtual mentorship sessions focused on peer learning by inviting veteran entrepre-

neurs and members of its mentorship board to help startup network and learn from the existing ecosystem.

"Amazon Global Selling, our flagship programme to grow exports from India is witnessing tremendous momentum with increasing interest from exporters across India. Our partnership with Startup India to launch this accelerator programme will provide emerging brands an opportunity to bring their business propositions to life and help create globally popular brands from India. With Amazon Global Selling we will continue to make exports simple and accessible to businesses of all sizes and fulfil our commitment of enabling \$10 billion in e-commerce exports from India by 2025," said Amit Agarwal, global senior vice president and country head, Amazon India.

Amazon chief executive officer Jeff Bezos, during his visit to India in January 2020, had pledged that the company will help export goods worth \$10 billion from India by 2025. Amazon India said that it has already hit the \$2 billion mark in July 2020, with close to 70,000 Indian sellers and small businesses being a part of its global selling initiative.

India sees 14% of global app installs: InMobi

Tarush Bhalla
tarush.b@livemint.com
BENGALURU

With the covid-led massive shift to online content, India's digital economy entered its next phase of growth, accounting for around 14% of global app downloads—four times higher than the global average, said a recent report by digital marketing firm InMobi.

According to the report, Marketing in the era of Mobile, India also came in second to Indonesia in terms of the average time spent on mobile phones in 2020, up 37% compared to 2019, while app downloads grew by 28% year-on-year.

India contributed nearly 9% of global app downloads in

India also came in second to Indonesia in terms of average time spent on mobile phones in 2020, report said

2019, according to app analytics firm App Annie.

After India imposed the lockdown on 25 March, mobile usage saw a 20% rise over the next three months. Indians on an average spent nearly 4.8 hours on a device every day in 2020, beating the global average of 4.2 hours.

"From the advertisers' perspective, with the increase in digital adoption, the video on-demand phenomena is a big one driven by OTT, gaming and short video apps. And now video buying is happening through programmatic buying where measurement of return on investment is more transparent. There has been a strong push from advertisers," Vasuta Agarwal, managing director, Asia-Pacific, InMobi said in an interview.

HT Media Limited
CIN: L22121DL2002PLC117874
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India
Tel : +91 11 66561608 Fax : +91 11 66561445
Email: investor@hindustantimes.com Website: www.htmedia.in

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2020

Particulars	Quarter ended			Nine Months Ended			Year ended
	Dec 31, 2020 Un-audited	Sep 30, 2020 Un-audited	Dec 31, 2019 Un-audited & Revised*	Dec 31, 2020 Un-audited	Dec 31, 2019 Un-audited & Revised*	March 31, 2020 Audited & Revised**	
Revenue from operations	34,074	26,074	56,883	76,822	161,776	208,260	
Net profit/(loss) for the period (before tax and/or exceptional items)	1,290	(6,537)	4,040	(12,747)	5,372	8,855	
Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,290	(6,537)	3,432	(12,747)	(12,864)	(34,367)	
Net profit/(loss) for the period after tax, non-controlling interest and share in loss of joint venture (after exceptional items)	326	(3,860)	1,560	(8,673)	(17,009)	(34,585)	
Total comprehensive income/(loss) for the period (comprising profit/(loss) for the period after tax, non-controlling interest and share in loss of joint venture and other comprehensive income (after tax))	501	(3,464)	1,504	(8,195)	(17,041)	(33,983)	
Paid-up equity share capital** (Face Value - INR 2/- per share)	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	
Other equity excluding revaluation reserves as per the audited balance sheet						210,874	
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	
Basic	0.14	(1.67)	0.68	(3.76)	(7.38)	(15.00)	
Diluted	0.14	(1.67)	0.67	(3.76)	(7.38)	(15.00)	

*Refer Note 6 of Quarterly Consolidated Financial Results filed with Stock Exchange for the quarter and nine months ended December 31, 2020
**Includes Equity Shares of INR 44 Lakhs held by HT Media Employee Welfare Trust

Notice:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.htmedia.in".
- The above unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on January 19, 2021. The Statutory Auditors of the Group have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR)) and have issued an unmodified review opinion.
- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time.
- Additional information on standalone financial results is as follows:-

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended			Year Ended
	Dec 31, 2020 Un-audited	Sep 30, 2020 Un-audited	Dec 31, 2019 Un-audited & Revised**	Dec 31, 2020 Un-audited	Dec 31, 2019 Un-audited & Revised**	March 31, 2020 Audited & Revised***	
Revenue from Operations	16,504	11,931	34,690	35,717	95,365	122,551	
Loss Before Tax	(2,027)	(7,221)	(1,893)	(16,415)	(19,123)	(43,258)	
Loss After Tax	(1,659)	(4,815)	(1,730)	(11,253)	(17,479)	(39,268)	
Total Comprehensive Loss	(1,560)	(4,561)	(1,815)	(10,943)	(17,455)	(38,316)	

**Refer Note 10 of Quarterly Standalone Financial Results filed with Stock Exchange for the quarter and nine months ended December 31, 2020
***For and on behalf of the Board of Directors
Shobhana Bhartia
Chairperson & Editorial Director

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. TENDER NOTICE
S.E., Western Circle-I, P.W.D. invites online RFP (Request for Proposal) for the work of : Supervision Consultancy Services for "Bolgur-Nanoor Road—Ch. From 0.0 kmp. to 19.0 kmp., widening and strengthening under Birbhum Division, P.W.D. in the district of Birbhum [2nd Call (Retender)]" e-RFP No.-01 of 2 0 2 0 - 2 1 . T e n d e r I D : 2021_PWD_315085_1. Bid submission start date (online) : 27.01.2021 from 5.00 p.m. Bid submission end date (online) : 08.02.2021 upto 3.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: http://wb.tenders.gov.in/Sd/-S.E., W.C.-I, P.W.D. ICA-T1211/1/2021

JINDAL STEEL & POWER
NOTICE

Notice is hereby given that under mentioned share certificates of the Company have been reported as lost or misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of duplicate share certificates:

Sr. No.	Name	Folio No.	FV (in Rs.)	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Yatin S Patel/ Suryakant R Patel	426390	1	507845	174893697-174895496	1800
2.	Tejinder Kaur	211379	1	200333	15800616-15802965	2350
3.	Satish B Thapar/ Kavita S Thapar	70160	1	503679	166961972-166963971	2000

Any person, who has a valid and legitimate claim in any of the above share certificates, is requested to notify the same to the Registrar & Transfer Agent of the Company i.e. Alankit Assignments Ltd., Alankit Heights, 1E13, Jhandewalan Extn., New Delhi - 110055, within 7 days from the publication of this notice. The Company will proceed to issue duplicate share certificates unless a valid and legitimate claim is received within the above prescribed timeline. No claim will be entertained by the Company with respect to original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicate share certificate(s).

For JINDAL STEEL & POWER LIMITED
Place: New Delhi Date: 20.01.2021
Anoop Singh Juneja
Company Secretary & Compliance officer

JINDAL STEEL & POWER LIMITED
(CIN: L27105HR1979PLC009913)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125005 (Haryana)
Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Tel: +91 11 4146 2000 | Fax: +91 11 2616 1271 | Email: jsplinfo@jindalsteel.com
Website: www.jindalsteelpower.com

indiamart
INDIAMART INTERMESH LIMITED
CIN: L74899DL1999PLC101534
Regd. Office: 1st Floor, 29- Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002
Website: www.indiamart.com, Ph. No: 011-49995600

NOTICE OF 26th EXTRA - ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 26th Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of Indiamart Intermesh Limited ("the Company") will be held on Wednesday, February 10, 2021, at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules thereof, including amendments thereunder read with the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the business as set out in the Notice of EGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to provisions of Section 102 of the Act and Rules thereof including amendments thereunder and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") including amendments thereunder, have been sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/the Depository Participants (DPs)/the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz., https://investor.indiamart.com on the websites of Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, including amendments thereunder and Secretarial Standard - 2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its members holding shares as on February 03, 2021, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of EGM. The Members may cast their votes using an e-voting system from place other than the venue of the meeting ("Remote e-voting") or by e-voting at the EGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Remote e-voting facility. The details of Remote e-voting are as under:

- The Remote e-voting period commences on Saturday, February 06, 2021 (9.00 a.m.) (IST) and ends on Tuesday, February 09, 2021 (5.00 p.m.) (IST).
- Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, February 03, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in or cs@indiamart.com. If a person is already registered with NSDL for Remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. If you forget your, password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
- The Members are also informed that:
 - Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on February 9, 2021.
 - Members participating in the EGM through VC / OAVM facility, who have not casted their vote by Remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting during the EGM.
 - Members who have casted their vote by remote-voting prior to the EGM may participate in the EGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting during the EGM.
 - A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e., Wednesday, February 03, 2021, shall be entitled to avail the facility of either Remote e-voting or e-voting during the EGM.
 - The procedure of electronic voting or attending the EGM through VC/OAVM facility is available in the Notice of EGM.
 - The manner of registration of e-mail addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company / the R & T Agent / DP is available in the Notice of EGM.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the "Downloads Section". You can also contact NSDL on toll free number 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or sonis@nsdl.co.in or telephone nos. :- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will address the grievances related to electronic voting.

By the order of the Board
For Indiamart Intermesh Limited
Sd/-
Manoj Bhargava
Senior Vice President (Legal & Secretarial),
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Delhi
Date : January 19, 2021

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED
(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Wajed Bhawan, D.J. Block, Sector-4, Bichanagar, Kolkata-700 091
CIN: U40101WB2007SGC113474 • web: www.wbsetcl.in

The Chief Engineer (Procurement) invites e-Tender from eligible and qualified bidders for the following works:

- NIT No.: CE(P)/WBSETCL/315 MVA Tr/20-21/17**
Date: 20.01.2021
Procurement of 315 MVA, 400/220/33 KV Auto Transformer. Bid documents can be downloaded from 20.01.2021 at 11.00 A.M. and shall be submitted (online) up to 04.00 P.M. on 18.02.2021.
- NIT No.: CE(P)/WBSETCL/20-21/18**
Date: 21.01.2021
Development of Geo-Referenced Power Map for use of WBSETCL within the state of West Bengal (2nd Call) involving supply, installation, customization of software, creation of mobile application and successful commissioning of software and hardware along with five years comprehensive warranty & maintenance. Bid documents can be downloaded from 21.01.2021 at 11.00 A.M. and shall be submitted (online) up to 4.00 P.M. on 17.02.2021.

Interested bidders may obtain bidding documents by registering themselves to the e-tendering portal (https://wbsetcl.tenders.gov.in or https://tenders.wb.nic.in). Also visit the Company's website (www.wbsetcl.in) for details. ICA-T1140(3)/2021

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise- Mini Ratna)
CIN: L74899DL1999GO1107107
Regd. Office: 11th Floor, B-148, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 India
Tel: 011 - 23311263-64 | Email ID: investors@irctc.com; Website: www.irctc.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, 28th January, 2021** inter alia, to consider, approve and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ended on **December 31, 2020**.

Pursuant to the "IRCTC's Code of Conduct for Regulating and Reporting Trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure Period has already commenced from **1st January, 2021** up to 48 hours from the date the said financial results are made public.

This information is also available on website of the Company at **www.irctc.com** and also on the website of Stock exchanges where the shares of the Company are listed at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

For INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED
Sd/-
Suman Kalra
Place: New Delhi Date: 19th January, 2021
Company Secretary and Compliance officer

RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

Notice Inviting Tender

e-tenders in two parts are invited for the work "Replacement of batteries of 2X80 kVA Uninterruptible Power Supply (UPS) System For The Bank's Main Office Building at New Delhi". Estimated cost of the work is Rs. 08.50 Lakhs and completion period is 30 days. For full details of qualification criteria, tender cost etc. please visit our website **www.rbi.org.in** and **www.mstccommerce.com/epochome/rbi** or contact us at Estate Department, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi - 110001.

Regional Director

